



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 5, 2004 (फाल्गुन 9, 1925)  
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 5, 2004 (FALGUNA) 9, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2004

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 89, दिनांक 29 जनवरी 2004--निम्नलिखित कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल का ऑनररी रैंक प्रदान किया जाता है और उनके नामों के सामने दर्शाए गए विश्वविद्यालयों के लिए उन्हें कुलपति नियुक्त होने की तारीख से कुलपति बने रहने की अवधि तक उस विश्वविद्यालय का कर्नल कमाण्डेंट नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	कुलपति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
----------	---------------	----------------------	-----------------------------------

1	2	3	4
1.	डॉ. अविनाश कुमार चावला कुलपति	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा	05 अप्रैल, 2003
2.	प्रो. आर सी पंत कुलपति	कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तरांचल	07 अगस्त, 2003
3.	प्रो. स्वतंत्र कुमार कुलपति	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तरांचल	18 जून, 2002

1	2	3	4
4.	प्रो. सर्वज्ञ सिंह कटियार कुलपति	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश	25 जुलाई, 2003
5.	डॉ. राम पाल सिंह कुलपति	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश	02 मार्च, 2003
6.	श्री नसीम अहमद कुलपति	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	07 मार्च, 2003
7.	डॉ. पवन कुमार सिंह कुलपति	चन्द्र शेखर आज़ाद कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश	07 जुलाई, 2003
8.	प्रो. सुरेन्द्र सिंह कुलपति	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, उत्तर प्रदेश	25 मार्च, 2003
9.	प्रो. संजय गोविन्द धांडे निदेशक	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश	16 अक्टूबर, 2001

सतीश के बहल

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

## सेना शाखा

सं. 90, दिनांक 28 जनवरी 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## सेना डाक सेवा कोर

सूबेदार लिपिक से सूबेदार मेजर/लिपिक (डाक)

रणजीत सिंह विश्वकर्मा (जेसी-136046एच), 01 जून 2002

नायब सूबेदार लिपिक से सूबेदार/लिपिक (डाक)

पोख पाल सिंह (जेसी-834192डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002

धरम पाल (जेसी-834193वाई), 01 फरवरी 2002

मंगत राम (जेसी-834194एफ), 01 फरवरी 2002

अनिल कुमार (जेसी-834195के), 01 मई 2002

जयपाल सिंह (जेसी-834196एम), 01 जून 2002

नाबा कुमार घोष (जेसी-834226वाई), 01 जून 2002

राम किशोर (जेसी-834227एफ), 01 जुलाई 2002

जगदीश चंदर (जेसी-834228के), 01 जुलाई 2002

वीर सिंह (जेसी-834229एम), 01 सितम्बर 2002

गजराज सिंह (जेसी-834230एफ), 01 अक्टूबर 2002

मन्नी राम (जेसी-834241एन), 01 नवम्बर 2002

बजे सिंह (जेसी-834243वाई), 01 नवम्बर 2002

दीपक कुमार सिन्हा (जेसी-834246एम), 01 जून 2003

तारक नाथ झा (जेसी-834189डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002

टी के एम पिल्लई

अपर सचिव

वारंट आफिसर से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

गणेश पति (सं. 8371763डब्ल्यू अब जेसी-834440एफ), 29 जुलाई 2003\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

राम बहादुर (सं. 8373438पी अब जेसी-834441के), 28 जुलाई 2003\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 2003 से दी जाएगी)

आर संजय (सं. 8373941एम अब जेसी-834442एम), 16 अक्टूबर 2003\*\*

\*\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2003 से दी जाएगी)

के वेंकटेशन (सं. 8373702एक्स अब जेसी-834443पी), 30 सितम्बर 2003&

&(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 2003 से दी जाएगी)।

हवलदार/लिपिक से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

परमजीत सिंह (सं. 8430604वाई अब जेसी-834422वाई), 19 जुलाई 2003#

#(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

रणजीत सिंह (सं. 8430803एम अब जेसी-834444एक्स), 12 अगस्त 2003##

हर मोहन नाथ (सं. 8430105एक्स अब जेसी-834445ए), 23 अगस्त 2003##

##(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाएगी)

गुलाब चन्द्र भारतीय (सं. 8430407डब्ल्यू अब जेसी-834446एच), 06 अगस्त 2003###

###(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)

राम अवतार (सं. 8430424डब्ल्यू अब जेसी-834447एल), 01 सितम्बर 2003.

सत्यवीर सिंह (सं. 8430551एल अब जेसी-834448एन), 01 सितम्बर 2003

सुख वीर (सं. 8430598डब्ल्यू अब जेसी-834449डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2003%

श्यामल कुमार विश्वास (सं. 8430619एफ अब जेसी-834450एल), 09 सितम्बर 2003%

%(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाएगी)

टी.के.एम. पिल्लई

अपर सचिव

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग

सं. 91, दिनांक 27 जनवरी 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

1. नमूना कक्ष नं. 3, कोलकता के श्री आर. एन. पाल, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक की 05 नवम्बर 03 (पूर्वाह) से 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर गु.आ.नि. (सामग्री), कानपुर में स्थानापन्न भंडार अधिकारी के रूप में।

1. व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिकी), नई दिल्ली के श्री एल.सी. भारद्वाज, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II की दिनांक 08 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक-I अधिकारी के रूप में।
2. एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद के श्री पी कृष्णा मोहन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II की दिनांक 01 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक-I के रूप में।
3. गु.आ.नि. (ई. उपस्कर), सिकन्दराबाद के श्री डी.एम. गजारे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II की दिनांक 05 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से गु.आ.नि. (भंडार), सिकन्दराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
4. गु.आ.नि. (अग्निशमन उपस्कर), पुणे के श्री बी.ए. साबले, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II की दिनांक 01 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
5. एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद के श्री सी.एस. अग्रवाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
6. व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिकी), जबलपुर के श्री एस.के. गांगुली, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 29 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
7. गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवदी के श्री के. जगन्नाथ राव, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
8. मुख्यालय गु.आ.नि. (वाहन), नई दिल्ली के श्री आर.एस. सैनी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 26 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से मुख्यालय गु.आ.नि. (युद्धपोत उपस्कर), नई दिल्ली में दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
9. व.गु.आ.स्था. (इंजीनियरी उपस्कर), जदरपुर, नई दिल्ली के श्री वी. नारायणन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 03 नवम्बर 2003 (पूर्वाह) से मुख्यालय गु.आ.नि. (इंजीनियरी उपस्कर), नई दिल्ली में दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
10. गु.आ.स्था. (युद्धपोत उपस्कर), बेंगलूर के श्री एस.एन. शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।

11. गु.आ.नि. (आई.सी.वी.), मेडक के श्री वाई. बाबू राव, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
12. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री के.ए. थोनीगरी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
13. गु.आ. नि. (आयुध), किरकी के श्री एन वेंकटरामन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 23 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
14. गु.आ.नि. (लघुशस्त्र), इच्छापुर के श्री एम.के. दत्ता, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 24 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
15. व.गु.आ.स्था. (आयुध), खमारिया के श्री बी.के. सोनी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 30 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
16. व.गु.आ.स्था. (आयुध), चैन्नई के श्री पी कैलाशनाथन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 03 नवम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
17. व.आ.नि. (आयुध), किरकी के श्री जय नारायण सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 17 अक्टूबर 2003 (पूर्वाह) से मुख्यालय गु.आ.नि. (आयुध) में दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
18. गु.आ. नि. (सैन्य विस्फोटक), किरकी के श्री बी. कृष्णामूर्ति, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की दिनांक 29 सितम्बर 2003 (पूर्वाह) से दो वर्षों की परीक्षा अवधि के लिये स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।

राष्ट्रपति, कार्मिक मंत्रालय, लोक-शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) (पी. पी. प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 19/1/86-पी. पी. दिनांक 14.08.1987 के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों को रक्षा गुणता आश्वासन सेवा में रु. 14,300-18,300 के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृतियक चयन श्रेणी) में स्थापन करते हैं, जो उनके सामने दर्शाई गई तिथि से लागू है :--

इलैक्ट्रॉनिक्स विधा

1. एस. के. श्रीवास्तव, व. गु. आ. स्था (सा. भ.), कानपुर--01.08.2003

इंजीनियरी विधा

2. एस. के. चक्रवर्ती, गु. आ. नि. (वि. वा.), देहू रोड--24.02.2003

3. एन. एम. कन्डास्वामी, गु. आ. नि. (भा. वा.), अवाडी--01.04.2003

4. श्रीमती एस. राधा, व. गु. आ. स्था (वा), चेन्नई--01.4.2003

5. ए. वी. पटवर्धन, गु. आ. नि. (आई. सी. वी.), मेडक--01.05.2003

6. जे. पी. सिंह, व. गु. आ. स्था. (ई. ई.), मुम्बई--01.08.2003

7. पी. वी. हरकरे, गु. आ. नि. (ओ. एफ. वी.), जबलपुर--01.09.2003

सामान्य भंडार एवं वस्त्र विधा

8. श्रीमती मंजु दीक्षित, गु. आ. नि. (टी. एण्ड सी.), कानपुर--03.11.2003

आयुध विधा

9. डी. आर. नवालुर, व. गु. आ. स्था. (आयुध), तिरुची--01.04.2003

डा. परविन्दर कौर,  
उप सचिव

सं. 92, दिनांक 29 जनवरी 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी-39839 ए के मोहापातरा, एसी, 13 जून 2001

आई सी-40129 एस जी आर चौधरी, एसी, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40059 एस एस बाजवा, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40095 वी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-39973 आर सी एस आर्या इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40057 एम सलीम, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40204 ए शर्मा इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

एस एल-02735 के एस डोगरा ए पी टी सी, 21 जुलाई 2000

एस एल-02830 एस पी के नायर, ए पी टी सी, 27 जुलाई 2001

एस एल-02892 एल एस वजेठा, ए पी टी सी, 27 जुलाई 2001

एस एल-02824 एन जोशी, ए पी टी सी, 27 जुलाई 2001

आई सी-42730 ए गोयल, इंजीनियर्स, 25 दिसम्बर 2002

आई सी-40970 एच जज ए ओ सी, 24 दिसम्बर 2002

आई सी-40789 आर एन सिंह, सिग्नल्स, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002

आई सी-40404 बी आर शर्मा, सिग्नल्स, 12 जून 2002

आई सी-42731 आई एस डीलन, सिग्नल्स, 25 दिसम्बर 2002

आई सी-42705 आर माथुर, इंजीनियर्स, 25 दिसम्बर 2002

आई सी-40766 पी सिंह, ए ओ सी, 24 दिसम्बर 2002

आई सी-39982 एम सिंह, आर्टी, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-41297 एस पी सिंह, एसी, 18 जून 2003

आई सी-41316 दर्शन सिंह, एसी, 18 जून 2003

आई सी-36968 ए पी सिंह, इंजीनियर्स, 17 नवम्बर 1998

आई सी-40609 एम राधा, ए ओ सी, 12 जून 2002

आई सी-37923 आर पारती, आर्टी, 27 अप्रैल 2002

आई सी-39944 ए दत्त, ई एम ई, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40253 आर कपूर, ई एम ई, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-37878 एन के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 27 अप्रैल 2002

आई सी-40636 ए के शर्मा, ए एस सी, 12 जून 2002

आई सी-39957 पी पी वेणुगोपाल, ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40587 जे सिंह, ए एस सी, 12 जून 2002

आई सी-40602 आर आर वर्मा, आर्टी, 12 जून 2002

आई सी-40044 जी के राव, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-37914 एस पी विलेकर, एसी, 27 अप्रैल 2002

आई सी-37994 एम सिंह, एसी, 27 अप्रैल 2002

आई सी-40392 के मित्तल, एसी, 12 जून 2002

आई सी-40626 ए शिरोही, एसी, 12 जून 2002

आई सी-40547 ए के गुप्ता, ए डी आर्टी, 12 जून 2002

आई सी-37903 एस एस भुलर, मैक इन्फैन्ट्री, 27 अप्रैल 2002

आई सी-40469 एस के स्वाने, मैक इन्फैन्ट्री, 13 जून 2002

आई सी-40541 पी कुमार, एडी आर्टी, 12 जून 2002

आई सी-40582 आर एस भाटी, एडी आर्टी, 12 जून 2002

आई सी-40318 के के कुमार, सिग्नल्स, 12 जून 2002

आई सी-41412 जे कुमार, आर्टी, 18 जून 2003

आई सी-41157 गुरीन्द्र जीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2003

आई सी-40965 विजय वी एम, सिग्नल्स, 24 दिसम्बर 2002

आई सी-36865 ई जे दोस, एसी, 20 अप्रैल 1998

आई सी-41364 एच सिंह, ई एम ई, 18 जून 2003

आई सी-40220 आर के शर्मा, एडी आर्टी, 19 दिसम्बर 2001

आई सी-40673 वी कुमार, ई एम ई, 12 जून 2000

- आई सी-37951 पी के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 11 नवम्बर 2002
- एस एल-03027 आई एस गुलेरिया, एस एल (आर ओ), 25 जुलाई 2003
- एस एल-03022 वी आर के राव, एस एल (आर ओ), 25 जुलाई 2003
- एस एल-03035 आर एल शर्मा, एस एल (आर ओ), 25 जुलाई 2003
- एस एल-03076 आर के काण्ड्याल, ई एम ई, 25 जुलाई 2003
- आई सी-41008 वी प्रधान, ई एम ई, 24 दिसम्बर 2002
- मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)
- आई सी-37520 एम.पी.एस. खेरा, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38366 डी.एस. यादव, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38434 डी. बहुगुना, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38440 सागर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38444 एम.जी.शिरोडकर, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38267 हरीश कुमार, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38271 वी. पांडे, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38276 आर. पी. एस. बरार, ए सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38307 एस. के. सिंह, ए डी ए, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38317 संजीव मेहरा, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38339 आर. के. कौशिश, सिग्नल्स, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38458 एस. गुहा, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38341 एस. जी. बालुताणी इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38342 आर. पी. एस. भदौरिया, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38344 एन आर के राव, सिग्नल, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38347 पी जयारमण, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38349 ए के दास, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38350 ए के शर्मा, ए सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38352 एस एम एस राठौर, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38353 डी के शाह, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38357 आर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38359 अनुपम बासु, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38361 आर एन चैटर्जी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38372 आर के झांगू, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38392 आर वी अलूकरण, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38397 एन के मेहता, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38398 एम एस मंगत, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38402 भवानी सिंह, ए सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38403 एस चौहान, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38405 डी एन सिंह, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38407 जयदीप सिंह, ए सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38408 विवेक सहगल, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38413 आई एन खाडसे, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38417 सी के बासु, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38421 के एस गहलावत, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38422 एस आर मराना बसारी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38431 आर के मलिक, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38449 एम एम बुराठोकी, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38473 जगदीश चन्द, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38474 वी के महेन्दु, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38475 चन्द्रपाल सिंह, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38479 ए के चौधरी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38480 एम के भुयान, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38482 एच एस अहलूवालिया, ए सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38487 पी डी हल्लूर, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38490 ए के आनन्द, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38491 बी पाठक, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38492 एस के महापात्र, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38494 ए खोसला, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38496 के के चौहान, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38497 डी एस सिद्धू, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38498 सुनील सोनी, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38501 एच एस गिल, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38502 सी के सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38503 अरुण भटनागर, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38506 बी एन सिंह इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38507 के एल शान्ताराम, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000
- आई सी-38508 असोके कुमार, ए ओ सी, 31 दिसम्बर 2000

आई सी-38510 एस बी कराडी, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38512 सी एम रोडरिग्स, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38516 एस बी चौधरी, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38521 ए श्रीवास्तव, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38528 के के अग्रवाल, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38535 आर एस भीवन, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38549 दिलावर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38554 कुलवंत सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38558 एस सी मिश्रा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38590 संजीव वर्मा, ए सी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38597 एस एस नेगी, ए ई सी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38601 जॉन एलिस, ए ई सी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38623 ए एस रातौर, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-38640 अरुण चोपड़ा, ए ई सी, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40263 के जे थंकाचन, सिग्नल, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40272 बी एम प्रसाद, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40273 रणधीर सिंह, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40275 सी पी नंजप्पा, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40280 एम के अरोड़ा, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-40287 के मधुसूदन, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2483 वी अलंकमानी, एस एल (बी/आर), 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-37860 बी के बस्तिया, ई एम ई, 31 दिसम्बर 2000  
 आई सी-37863 एस वी गांवपाण्डे, इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2558 एस आर के मूर्ति, एस एल (क्यू/एम), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2561 पृथ्वी चंद, एस एल (क्यू/एम), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2567 रंजीत सिंह एस एल (क्यू/एम), 31 दिसम्बर 2000

एस एल-2579 जी एस गुप्तेन, एस एल (आर ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2586 के डी राणा, एस एल (आर ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2587 बी एस वर्मा, एस एल (आर/ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2595 त्रिलोचन दत्त, एस एल (आर/ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2601 आर रवीन्द्रन, एस एल (टीई/ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2602 के रामादासम, एस एल (टी ई ओ), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2608 एच आई एस सैनी, एस एल (ई/एम), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2616 आर एन सिंह, एस एल (सिफर), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2628 एस आर वर्मा, एस एल (पीओ टी), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2639 अमरजीत सिंह, एस एल (ए ई), 31 दिसम्बर 2000  
 एस एल-2644 एस एस जेरवाल, एस एल (एस ए), 31 दिसम्बर 2000

शशि शंकर सिन्हा  
 उपनिदेशक सेना सचिव

सेना शाखा

सं. 93, दिनांक 29 जनवरी 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। (बढ़ी हुई अवधि समेत):--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल वी सी ओहरी (एम आर-02090एल), ए एम सी/पी सी--31-03-2003 (अपराह)

सर्जन वाईस एडमिरल एच पी मुखर्जी (एम आर-2403 वाई), (75091कै)/ए एम सी/पी सी--29-08-2002 (अपराह)

(श्रीमती) पी बंधोपाध्याय

एयर वाईस मार्शल

एडिशनल डी जी ए एफ एम एस

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th February 2004

## NATIONAL CADET CORPS

NO. 89, dated 29th January 2004.—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor	Name of the University	Date of appointment as V.C.
Dr. Avinash Kumar Chawla Vice Chancellor	Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana	05.04.2003
Prof. R.C. Pant Vice Chancellor	Kumaon University Nainital, Uttaranchal	07.08.2003
Prof. Swatantra Kumar Vice Chancellor	Gurukul Kangri Vishwa- vidyalaya, Haridwar, Uttaranchal	18.06.2002
Prof. Sarvagya Singh Katiyar Vice Chancellor	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, UP	25.07.2003
Dr. Ram Pal Singh Vice Chancellor	Chaudhary Charan Singh University, Meerut, UP	02.03.2003
Sh. Naseem Ahmad Vice Chancellor	Aligarh Muslim University Aligarh, UP	07.03.2003
Dr. Pawan Kumar Singh Vice Chancellor	Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, UP	07.07.2003
Prof. Surendra Singh Vice Chancellor	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, UP	25.03.2003
Prof. Sanjay Govind Dhande Director	Indian Institute of Technology, Kanpur, UP	16.10.2001

SATISH K. BAHL

Brig.

Dy. Dir. Gen. (MS)

## ARMY BRANCH

No. 90, date 28th January 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## ARMY POSTAL SERVICE CORPS

To be Sub Maj/Clk (Postal)

Sub/Clk (Postal) Ranjit Singh Vishwakarma, (JC-136046H),  
01 Jun 02.

To be Sub/Clk (Postal)

Nb Sub/Clk (Postal) Pokh Pal Singh (JC-834192W), 01  
Jan 2002

Nb Sub/Clk (Postal) Dharam Pal (JC-834193Y), 01 Feb  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Mangat Ram (JC-834194F), 01 Feb  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Anil Kumar (JC-834195K), 01 May  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Jaipal Singh (JC-834196M), 01 Jun  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Naba Kumar Ghosh (JC-834226Y),  
01 Jun 2002

Nb Sub/Clk (Postal) Ram Kishor (JC-834227F), 01 Jul  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Jagdish Chander (JC-834228K), 01  
Jul 2002

Nb Sub/Clk (Postal) Bir Singh (JC-834229M), 01 Sep 2002

Nb Sub/Clk (Postal) Gajraj Singh (JC-834230F), 01 Oct  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Manni Ram (JC-834241N), 01 Nov  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Baje Singh (JC-834243Y), 01 Nov  
2002

Nb Sub/Clk (Postal) Dipak Kumar Sinha (JC-834246M),  
01 Jun 2003

Nb Sub/Clk (Postal) Tarak Nath Jha (JC-834189W), 01  
Jul 2003

Warrant Officer to be Nb Sub/Clk (Postal)

Ganesh Pati, 8371763W (Now JC-834440F), 29 Jul 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Feb 2003  
without effect on pay and allowances)

Ram Bahadur, 8373438P (Now JC-834441K), 28 Jul  
2003\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Mar  
2003 without effect on pay and allowances)

R Sanjay, 8373941M (Now JC-834442M), 16 Oct 2003\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Mar  
2003 without effect on pay and allowances)

K Venkatesan, 8373702X (Now JC-834443P), 30 Sep  
2003%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jun  
2003 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk to be Nb Sub/Clk (Postal)

Paramjeet Singh, 8430604Y (Now JC-834422Y), 19 Jul  
2003%%

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances)

Ranjit Singh, 8430803M (Now JC-834444X), 12 Aug 2003#

Har Mohan Nath, 8430105X (Now JC-834445A), 23 Aug 2003#

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances)

Gulab Chandra Bhartiya, 8430407W (Now JC-834446H), 06 Aug 2003##

##(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances)

Ram Avtar, 8430424W (Now JC-834447L), 01 Sep 2003

Satyavir Singh, 8430551L (Now JC-834448N), 01 Sep 2003

Sukh Bir, 8430598W (Now JC-834449W), 20 Oct 2003\$

Syamal Kumar Biswas, 8430619F (Now JC-834450L), 09 Sep 2003\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances)

T.K.M. PILLAI  
Under Secy.

#### DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION & SUPPLIES

No. 91, the 27th January 2004.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri RN Pal, SSS of SRID No. 3, Kolkata to be Offg. Stores Officer at CQA(M), Kanpur on probation for a period of 02 years wef 05 Nov 2003 (F/N).

Shri LC Bhardwaj, SSO-II, SQAE(L), New Delhi to be SSO-I in-situ w.e.f. 08 Sep 2003 (F/N).

Shri P Krishna Mohan, SSO-II, MSQAA, Hyderabad to be SSO-I in-situ w.e.f. 01 Sep 2003 (F/N).

Shri DM Gazare, SSO-II, CQA(EW), Secunderabad, to be SSO-I at CQA(S), Secunderabad w.e.f. 05 Sep 2003 (F/N).

Shri BA Sable, SSO-II, CQA(FFE), Pune to be SSO-I in-situ w.e.f. 01 Sep 2003 (F/N).

Shri CS Aggarwal, JSO, MSQAA, Hyderabad to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri SK Ganguly, JSO, SQAE(L), Jabalpur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 29 Sep 2003 (F/N).

Shri K Jagannatha Rao, JSO, CQA(HV), Avadi to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri RS Saini, JSO, HQ DQA(V), New Delhi to be Offg. SSO-II at HQ DQA(WP), New Delhi, on probation for a period of two years w.e.f. 26 Sep 2003 (A/N).

Shri V Narayanan, JSO, SQAE(EE), Badarpur, New Delhi to be Offg. SSO-II at HQ DQA(EE), New Delhi, on probation for a period of two years w.e.f. 03 Nov 2003 (F/N).

Shri SN Sharma, JSO, QAE(WE), Bangalore to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri Y Babu Rao, JSO, CQA(ICV), Medak to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri KA Thongire, JSO, SQAE(GS), Mumbai to be offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri N Venkatraman, JSO, CQA(A), Kirkee to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 23 Sep 2003 (F/N).

Shri MK Dutta, JSO, CQA(SA), Ichapur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 24 Sep 2003 (F/N).

Shri BK Soni, JSO, SQAE(A), Khamaria to be Offg. SSO-II at CQA(W), Jabalpur, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Sep 2003 (F/N).

Shri P Kailasnathan, JSO, SQAE(A), Chennai to be Offg. SSO-II at SQAE(A), Trichy, on probation for a period of two years w.e.f. 03 Nov 2003 (F/N).

Shri Jai Narayan Singh, JSO, CQA(A), Kirkee to be Offg. SSO-II at HQ DQA(A), New Delhi, on probation for a period of two years w.e.f. 17 Oct 2003 (F/N).

Shri B Krishnamurthy, JSO, CQA(ME), Kirkee to be Offg. SSO-II at QAE(ME/HEF), Kirkee on probation for a period of two years w.e.f. 29 Sep 2003.

The President is pleased to make placements of the following Principal Scientific Officers in the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) in Defence Quality Assurance Service in the pay scale of Rs. 14300-18300 in terms of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training) (PP Division) OM No. 19/1/86-PP dated 14.8.1987 with effect from the dates mentioned against their names :—

Sr. No.	Name of the officer/ Establishment	Date of grant of NFSG
1	2	3

#### ELECTRONICS DISCIPLINE

(S/Shri)

1. SK Srivastav, SQAE(GS), Kanpur 01.08.2003

#### ENGINEERING DISCIPLINE

2. SK Chakraborty, CQA(SV), Dehu Road 24.02.2003

3. NM Kandaswamy, CQA(HV), Avadi 01.04.2003



1	2	3
4.	Smt. S Radha, SQAE (V), Chennai	01.04.2003
5.	AB Patwardhan, CQA(ICV), Medak	01.05.2003
6.	JP Singh, SQAE (EE), Mumbai	01.08.2003
7.	PV Harkare, CQA(OFV), Jabalpur	01.09.2003
<b>GENTEX DISCIPLINE</b>		
8.	Smt. Manju Dixit, CQA(T&C) Kanpur	03.11.2003
<b>ARMAMENT DISCIPLINE</b>		
9.	DR Navalur, SQAE(A), Trichy	01.04.2003
<b>DR. PARVINDER KAUR</b>		
Dy. Secy.		

No. 92, dated 29 Jan 2004. -- The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

##### Permanent Commission

##### Majors to be Substantive Lt. Col (Time Scale)

A.K. Mohapatra (IC-39839), AEC 13 June 2001.  
 SGR Chowdhury (IC-40129), AC 16 Dec. 2001.  
 SS Rajwa (IC-40059), Inf. 19 Dec. 2001.  
 B Sharma (IC-40095), Inf. 19 Dec. 2001.  
 RC Arya (IC-39973), Inf. 19 Dec. 2001.  
 M Salim (IC-40057), Inf 19 Dec. 2001.  
 A Sharma (IC-40204), Inf. 19 Dec. 2001.  
 KS Dogra (SL-02735), APTC 21 Jul 2000.  
 SPK Nair (SL-02830), APTC 27 Jul 2001.  
 LS Bajetha (SL-2892), APTC 27 Jul 2001.  
 N Joshi (SL-02824), APTC 27 Jul 2001.  
 A Goel (IC-42730), ENGRS 25 Dec. 2002.  
 H Judge (IC-40970), AOC 24 Dec. 2002.  
 RN Singh Singal (IC-40789), Inf. 24 Dec. 2002.  
 BR Sharma (IC-40404), Sigs 12 Jun 2002.  
 IS Dhillon (IC-42731), Sigs 25 Dec. 2002.  
 R Mathur (IC-42705), Engrs 25 Dec. 2002.  
 P Singh (IC-40766), AOC 24 Dec 2002.  
 M Singh (IC-39982), Arty 19 Dec 2001.  
 SP Singh (IC-41297), AC 18 Jun 2003.  
 Darshan Singh (IC-41316), AC 18 Jun 2003.  
 AP Singh (IC-36968), Engrs 17 Nov. 1998.  
 M Ratha (IC-40609), AOC, 12 Jun 2002.  
 R Parti (IC-37923), Arty, 27 Apr 2002.  
 A Dutt (IC-39944), EME, 19 Dec 2001.  
 R Kapur (IC-40253), EME, 19 Dec 2001.

NK Sharma (IC-37878), Inf, 27 Apr 2002.  
 AK Sharma (IC-40636), ASC, 12 Jun 2002.  
 PP Venugopal (IC-39957), ASC, 19 Jun 2001.  
 J Singh (IC-40587), ASC, 12 Jun 2002.  
 RR Verma (IC-40602), Arty, 12 Jun 2002.  
 GK Rao (IC-40044), Inf, 19 Dec 2001.  
 SP Vilekar (IC-37914), AC, 27 Apr 2002.  
 M Singh (IC-37994), AC, 27 Apr 2002.  
 K Mital (IC-40392), AC, 12 Jun 2002.  
 A Sirohi (IC-40626), AC, 12 Jun 2002.  
 AK Gupta (IC-40547), AD Arty, 12 Jun 2002.  
 SS Bhullar (IC-37903), Mech Inf, 27 Apr 2002.  
 SK Sawhney (IC-40469), Mech Inf, 13 Jun 2002.  
 P Kumar (IC-40541), AD Arty, 12 Jun 2002.  
 RS Bhati (IC-40582), AD Arty, 12 Jun 2002.  
 KK Kumar (IC-40318), Sigs. 12 Jun 2002.  
 J Kumar (IC-41412), Arty, 18 Jun 2003.  
 Gurinder Jit Singh (IC-41157), Inf, 18 Jun 2003.  
 Vijay BM (IC-40965), Sigs, 24 Dec 2002.  
 EJ Doss (IC-36865), AC, 20 Apr 1998.  
 H Singh (IC-41364), EME, 18 Jun 2003.  
 RK Sharma (IC-40220), AD Arty, 19 Dec 2001.  
 V Kumar (IC-40673), EME, 12 Jun 2000.  
 PK Sharma (IC-37951), Inf,\* 11 Nov 2002.  
 JS Guleria (SL-03027), SL(RO), 25 Jul 2003.  
 VRK Rao (SL-03022), SL(RO), 25 Jul 2003.  
 RL Sharma (SL-03035), SL(RO), 25 Jul 2003.  
 RK Kandiil (SL-03076), EME, 25 Jul 2003.  
 V. Pradhan (IC-41008), EME, 24 Dec 2002.

##### Maj to be Substantive Col (By Selection)

Name, IC No. Arm & Subs Date  
 MPS Khaira (IC-37520), Inf, 31 Dec 2000.  
 BB Sagar (IC-37533), Arty, 31 Dec 2000.  
 DS Yadav (IC-38366), Arty, 31 Dec 2000.  
 Mam Raj SG (IC-38386), Inf, 31 Dec 2000.  
 Ramanjit SG (IC-38390), Inf, 31 Dec 2000.  
 D Bahuguna (IC-38434), Inf, 31 Dec 2000.  
 Sagar Singh (IC-38440), Inf, 31 Dec 2000.  
 MG Shirodkar (IC-38444), Inf, 31 Dec 2000.  
 Harish Kumar (IC-38267), Engrs, 31 Dec 2000.  
 V Pande (IC-38271), M Inf, 31 Dec 2000.

RPS Brar (IC-38276), AC, 31 Dec 2000.  
SK SG (IC-38291), Inf, 31 Dec 2000.  
VP SG (IC-38300), Inf, 31 Dec 2000.  
SK Singh (IC-38307), ADA, 31 Dec 2000.  
Bani SG (IC-38312), AOC, 31 Dec 2000.  
Raghubir SG (IC-38313), Inf, 31 Dec 2000.  
Sanjiv Mehra (IC-38317), M Inf, 31 Dec 2000.  
RK Kaushish (IC-38339), Sigs, 31 Dec 2000.  
SP Sharma (IC-38340), Arty, 31 Dec 2000.  
S Guha (IC-38458), Inf, 31 Dec 2000.  
SG Balutagi (IC-38341), Inf, 31 Dec 2000.  
RPS Bhadauria (IC-38342), Inf, 31 Dec 2000.  
NRK Rao (IC-38344), Sigs, 31 Dec 2000.  
P Jayaraman (IC-38347), Inf, 31 Dec 2000.  
AK Das (IC-38349), Inf, 31 Dec 2000.  
AK Sharma (IC-38350), AC, 31 Dec 2000.  
SMS Rathore (IC-38352), AOC, 31 Dec 2000.  
DK Shah (IC-38353), Inf, 31 Dec 2000.  
R Singh (IC-38357), Inf, 31 Dec 2000.  
Anupam Basu (IC-38359), EME, 31 Dec 2000.  
RN Chatterjee (IC-38361), Arty, 31 Dec 2000.  
RK Janghu (IC-38372), M Inf, 31 Dec 2000.  
RV Alookaran (IC-38392), Arty, 31 Dec 2000.  
NK Mehta (IC-38397), AOC, 31 Dec 2000.  
MS Mangat (IC-38398), M Inf, 31 Dec 2000.  
Bhawani Singh (IC-38402), AC, 31 Dec 2000.  
S Chauhan (IC-38403), Inf, 31 Dec 2000.  
DN Singh (IC-38405), Arty, 31 Dec 2000.  
Jaideep Singh (IC-38407), AC, 31 Dec 2000.  
Vivek Sehgal (IC-38408), Inf, 31 Dec 2000.  
IN Khadse (IC-38413), Arty, 31 Dec 2000.  
CK Babu (IC-38417), Inf, 31 Dec 2000.  
KS Gahlawat (IC-38421), Arty, 31 Dec 2000.  
SR Marana Basari (IC-38422), Arty, 31 Dec 2000.  
RK Malik (IC-38431), Inf, 31 Dec 2000.  
MM Burathoki (IC-38449), AOC, 31 Dec 2000.  
Jagdish Chand (IC-38473), AOC, 31 Dec 2000.  
VK Mahendru (IC-38474), Arty, 31 Dec 2000.  
Chander Pal Singh (IC-38475), Arty, 31 Dec 2000.

AK Choudhary (IC-38479), Arty, 31 Dec 2000.  
MK Bhuyan (IC-38480), Inf, 31 Dec 2000.  
HS Ahluwalia (IC-38482), AC, 31 Dec 2000.  
PD Hallur (IC-38487), Inf, 31 Dec 2000.  
AK Anand (IC-38490), AOC, 31 Dec 2000.  
B Pathak (IC-38491), Arty, 31 Dec 2000.  
SK Mahapatra (IC-38492), M Inf, 31 Dec 2000.  
A Khosla (IC-38494), Inf, 31 Dec 2000.  
KK Chouhan (IC-38496), Engrs, 31 Dec 2000.  
DS Sidhu (IC-38497), Arty, 31 Dec 2000.  
Sunil Soni (IC-38498), Inf, 31 Dec 2000.  
HS Gill (IC-38501), Arty, 31 Dec 2000.  
CK Singh (IC-38502), M Inf, 31 Dec 2000.  
Arun Bhatnagar (IC-38503), Arty, 31 Dec 2000.  
BN Singh (IC-38506), Inf, 31 Dec 2000.  
KL Santaram (IC-38507), AOC, 31 Dec 2000.  
Asoke Kumar (IC-38508), AOC, 31 Dec 2000.  
SB Karadi (IC-38510), Arty, 31 Dec 2000.  
CM Rodrigues (IC-38512), Inf, 31 Dec 2000.  
SV Choudhary (IC-38516), Inf, 31 Dec 2000.  
A Srivastava (IC-38521), Engrs, 31 Dec 2000.  
KK Agarwal (IC-38528), EME, 31 Dec 2000.  
RS Bhowan (IC-38535), Inf, 31 Dec 2000.  
Dilawar Singh (IC-38549), Inf, 31 Dec 2000.  
Kulwant Singh (IC-38554), Inf, 31 Dec 2000.  
SC Mishra (IC-38558), Arty, 31 Dec 2000.  
Sanjiv Varma (IC-38590), AC, 31 Dec 2000.  
SS Negi (IC-38597), AEC, 31 Dec 2000.  
John Ellis (IC-38601), AEC, 31 Dec 2000.  
AS Rathore (IC-38623), M Inf, 31 Dec 2000.  
Arun Chopra (IC-38640), AEC, 31 Dec 2000.  
KJ Thankachan (IC-40263), Sigs, 31 Dec 2000.  
VM Prasad (IC-40272), EME, 31 Dec 2000.  
Randhir Singh (IC-40273), Engrs, 31 Dec 2000.  
CP Nanjappa (IC-40275), EME, 31 Dec 2000.  
MK Arora (IC-40280), Engrs, 31 Dec 2000.  
K Madhusudhan (IC-40287), EME, 31 Dec 2000.  
V Alankamani (SL-2483), SL (B/R), 31 Dec 2000.  
BK Basha (IC-37860), EME, 31 Dec 2000.

SV Gaopande (IC-37863), Engrs, 31 Dec 2000.  
 SRK Moorthi (SL-2558), SL(QM), 31 Dec 2000.  
 Prithvi Chand (SL-2561), SL(QM), 31 Dec 2000.  
 Ranjit Singh (SL-2567), SL(QM), 31 Dec 2000.  
 GS Gussain (SL-2579), SL(RO), 31 Dec 2000.  
 KD Rana (SL-2586), SL(RO), 31 Dec 2000.  
 VS Verma (SL-2587), SL(RO), 31 Dec 2000.  
 Tarlochan Dutt (SL-2595), SL(RO), 31 Dec 2000.  
 R Ravindran (SL-2601), SL(TEO), 31 Dec 2000.  
 K Ramadasam (SL-2602), SL(TEO), 31 Dec 2000.  
 HIS Saini (SL-2608), SL(E/M), 31 Dec 2000.  
 RN Singh (SL-2616), SL(CIPHER), 31 Dec 2000.  
 SR Verma (SL-2628), SL(POT), 31 Dec 2000.  
 Amarjit Singh (SL-2639), SL(AE), 31 Dec 2000.

SS Jeryal (SL-2644), SL(SA), 31 Dec 2000.

SS SINHA  
 Dy. Dir.  
 DAMS-8A

#### ARMY BRANCH

No. 93, dated 29th January 2004.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Maj Gen VC Ohri (MR-02090L), AMC/PC, 31 Mar 2003 (AN).

Surg VADM HP Mukherjee (MR-02403 Y) (75091K), AMC/PC, 29 Aug 2002 (AN).

(Mrs) P BANDOPADHYAY  
 Air Vice Marshal  
 Addl. DGAFMS